

नाम:- डॉक्टर कृष्ण शर्मा

सेमिनर:- 1

रोल नं.:- 163

REG No:- COC2025163

पेपर का नाम:- Banking and Finance

पेपर कोड:- MJ-BAF-101

विद्यार्थी की सही:- वा.श.डॉक्टर.

1.

प्रश्न:-1 आर.जी.आर.जी. नीति विस्तार-रीत  
समझो.

★ प्रस्तावना

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) भारत  
का केंद्रीय बैंक है, जो 1935 में स्थापित था।  
तेलु मुख्य कार्य भारत की आर्थिक स्थिति  
को, जैसा राष्ट्रीय नीति (Monetary Policy)  
मदतपूर्वक लागू है। राष्ट्रीय नीति द्वारा RBI  
वृद्धि, मौद्रिक (Monetary) का नियंत्रण, रोजगारी  
आदि राष्ट्रीय क्षेत्रों की स्थिति पर काम करे है।  
आ नीति को RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC)  
द्वारा नई इस्तेमाल करते है। 2016 में स्थापित  
है और तैसा 6 सदस्यीय है (3 RBI और 3 सरकारी  
नॉमिनेट्स)।

### राष्ट्रीय नीति शुरु है

राष्ट्रीय नीति को एक सेवा साधनों को  
समझ है जैसा उपयोग करनी मध्यक बैंक द्वारा  
कॉन्ट्रोल, नए पुरवठा के नियंत्रित करवा और आर्थिक  
विकास को प्रोत्साहन आपका मारे करवाया करते  
है।

★ राष्ट्रीय नीति का प्रकार:-

राष्ट्रीय नीति का प्रकार है

२.

1. विस्तारवादी नाफ़ाडीय नीति
२. संकोचवादी नाफ़ाडीय नीति
3. तटस्थ नाफ़ाडीय नीति

एक प्रकोच नाफ़ाडीय नीतिस्रोता प्रसारण  
देशना आंतरिक अर्थतंत्र उपर करने अन्य  
देशो साधना आर्थिक वेपार उपर अलग-अलग  
असरको उत्पन्न करे छै.

1. विस्तारवादी नाफ़ाडीय नीति  
“यैसा बंधारी, व्याज घटाओ, अर्थतंत्र चलावो”

लक्ष्य	वर्णन
उद्देश्य	आर्थिक वृद्धि वधाववा, बेरोजगारी घटाववा, मंडी दूर
साधनो ना उपयोग	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रेपोरेट घटाववा</li> <li>• CRR/SLR घटाववा</li> <li>• OMO द्वारा जोन्स जरीदी</li> <li>• रीवर्स रिपो कर घटाववा</li> </ul>
असर	<ul style="list-style-type: none"> <li>• लोन सक्ती → रोडाडा↑</li> <li>• बर्ष वधि → उद्योगो चाली</li> <li>• GDP वृद्धि↑</li> </ul>
भोयम	मंडीवारी वधा शर्डी. (नो वधु यस्तु थाव)
उदाहरण (२०२०)	COVID-19 मां रिपो रेट 4.00% से घटा घटाववा, CRR 3% कुवो. → ₹ 10 लाख क्रेडिट नी लिबिडिटी उमेराध.

3

२. संकुचवादी नाफाडीय नीति  
 "येसा घराणे, व्याज वधारणे, मोधवारी राडे"

लक्षणा	वर्णन
उद्देश्य	मोधवारी नियंत्रणा, कर्षतेत्र नी "सोव-रडीर" ची जयावकु.
साधनो नो उपयोग	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रिपो रेट वधारणे</li> <li>• CRR/SLR वधारणे</li> <li>• OMO वीर जोडुस वेंचाडा</li> <li>• रिवर्स रिपो वधारणे</li> </ul>
कारण	<ul style="list-style-type: none"> <li>• लोन माँधी → कर्ष घटे</li> <li>• डेडिट घटे → मांग घटे</li> <li>• मोधवारी ↓</li> </ul>
गोळम	सुद्धि घामी चडी राडे.
उदाहरण (२०२२-२३)	मोधवारी ७.८% → रिपो रेट ६.५०%, सुधा वधारणे, OMO वीरर लाज ड्रोड शोधया → CPI ५% नीरु सापी

३. तटस्थ नाफाडीय नीति  
 "संतुलन शपवी - नवधारणे, न घराणे"

4.

लक्ष्य	कार्य
उद्देश्य	मौद्रिकता को वृद्धि करके संतुलन
स्थिति	ज्यादा अर्थतंत्र स्थिर होय
साधन	<ul style="list-style-type: none"> <li>• रेट में डीए इस्तेमाल नहीं.</li> <li>• लिक्विडिटी स्थिर रखनी.</li> <li>• OMO/MSF को मर्यादित रखना</li> </ul>
असर	अर्थतंत्र स्थिर गतिमें आएगा
उदाहरण (2025)	<p>स्टांडबोर्ड रेट में रिया 6.50% पर स्थिर, CPI 4.8% GDP 7%                      → "Neutral stance"</p>

### ★ राष्ट्रीय नीति का मुख्य उद्देश्य

- RBI की राष्ट्रीय नीति का मुख्य उद्देश्य नीचे मुख्य है:-

1. मौद्रिक नियंत्रण:- RBI को प्राथमिक उद्देश्य 4% मौद्रिकता को रखना है, जो  $\pm 2\%$  टोलरेंस है, आ 2016 का राष्ट्रीय नीति इमर्स डेडन रखी था है.

2. आर्थिक वृद्धि:- GDP वृद्धि को प्रोत्साहन प्राप्त करना है और नए वृद्धि का समय.

૩. ૫. નાણાકીય સ્થિતિ:- ભેંડોમાં યુદ્ધ ની ચર્ચાઓ, લિસ્ટિવિટી અને નાણાકીય સેક્ટરનું જોખમ ઘટાડવું.

૫. શોજગારી અને ઇનિમ્પ દર:- શોજગારી વધારવા અને કુચિયા ના મૂલ્યને સ્થિર રાખવું.

★ નાણાકીય નીતિ ના સાધનો

• સિઝર્વ લેંડ સ્કોફ ઇન્ડિયા (CRIS) તેની નાણાકીય નીતિ ને સમલમાં મૂકવા માટે પ્રવચ્ચ અને યચોક્ષ સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે આ સાધનો હાથે RBI લિસ્ટિવિટી, વાજ ઘરો અને ભેંડોની ડેડિટ સાધવાની ક્ષમતાને નિયંત્રિત કરે છે.

૧. પ્રાયક્ષ સાધનો:- આ સાધનો પેંસાના પુરવઠાને સીધુ સત્કર કરે છે અને તેનો પ્રભાવ આયા સર્ધતમ પર પડે છે.

સાધન	વર્ણન	ઉદ્દેશ્ય	સત્કર	ઉદાહરણ(સંખ્ય)
રિપોરટ	RBI ભેંડોને ડેડિટ ચાખવાની લાગણી છે તેના પરનો વાજ દર, ભેંડો તેમની સિસ્ટીમેટિક RBI ને બીચ્વે મૂકીને લીન લે છે.	મોંઘવારી નિયંત્રણ અને વાજ ઘરો નું નિયંત્રણ	વધારો → લીન મોંઘા → ડેડિટ ઘટે → મોંઘવારી ઘટે. ઘટાડો → લીન સસ્તી → ડેડિટ વધે. વધે- વધે વધે.	6.50% (સપ્ટેમ્બર સુરુ 5 માં જાવાયેલ)
રિવર્સ રિપોરટ	RBI ભેંડો ચાખેથી અનિચ્છિત નાણાકીય છે તેના પરનો વાજ દર.	જશર મોંઘા પેંસા શોધી લેવા	ભેંડોને RBI માં પેંસા જમા કરવા પ્રોત્સાહન → લિસ્ટિવિટી ઘટે.	6.25% (સપ્ટેમ્બર સુરુ 0.25% સુરુ)
ડેશ સિઝર્વ રેસિયો	ભેંડોને તેમની જમા રકમનો ટકા RBI સમ્પાદની સમતલ રાહડમાં જમા રાખવો.	ભેંડોની ડેડિટ સાધવાની સમતલ ઘટાડવી/વધારવા	વધારો → ભેંડો ચાખે સાધા પેંસા → ડેડિટ ઘટે. ઘટાડો → વધુ ડેડિટ	4.50% (સ્થિર)

6.

मार्जिनल स्ट्रेन्डिंग इसिलिटी	लेंडो एमरजेन्सीमा रिचो रेट + 0.5 % पर RBI यास धी लोन लघु करे	लिक्विडिटी स्टोस्टी मां महद	लेंडो नी संतिम उपाय कावे.	6.75%
-------------------------------------	---	-----------------------------------	---------------------------------	-------

2. यशस साधनी:-

साधन	वर्णन	उद्देश्य	उदाहरण
ओपन मार्केट ओपरेशन्स (OMO)	RBI सक्करी जोन्डस यशस वेधे छे.	लगायमां लिक्विडिटी वधावनी/ धरावनी.	यशसनी -> पैसां लक्ष -> लिक्विडिटी वधे. विशास -> पैसा शोध -> मां धार घरे.
मार्जिनल रिड्यापमेन्स	डेपोजिट लोन पर जाखे मुक्कानी रुडम वधावनी.	बोड्स सक्करी मां डेडिट धरावनी.	रिपल एक्सेटरेमां लजल हो नी मार्जिन वधावनी.
मोवेल सुखे- शन	RBI लेंडो नी सालाड/ हजाडा कावे छे.	नीति कुं थालन करावकुं.	CC इति क्षेत्र ने वधु लोन कावनी.
डेडिट रेशरिक्टि वनी	RBI थाक्कस सक्करी मां डेडिट मयां नक्की करे.	अनावक्यड क्षेत्रमां डेडिट धरावनी.	लडकरी डार लोन पर मयां.

3. अन्य महत्त्वना साधनी:-

साधन	वर्णन	उपाय
लिक्विडिटी इसिलिटी	रिचो + रिवर्स रिचो कुं संयोजन	काजनी लिक्विडिटी निपत्रडा.
टर्म रिचो वेहियेनल रेट रिचो	मु.प्र. 28 दिवसनी लोन थल वधि सार्ध रिचो	मध्यम गजानी लिक्विडिटी शावडा

૭.

## ★ મોનેટરી પોલિસી કમિટી (MPC)

- રચના:- ગવર્નર, ડેપ્યુટી ગવર્નર અને ૫ નિષ્ક્રાંતી (સરકાર દ્વારા નામિત).  
 (સરકાર દ્વારા નામિત).
- સંદાજિત નિર્ણય પ્રક્રિયા:- મોટાભાગે ઇન્ફ્લેશન ટાર્ગેટિંગ પર આધારિત, જેમાં આર્થિક ડેટા (GDP, CPI, IIP) વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે.
- સ્વચ્છ શુદ્ધિ:- ૨૦૨૬ સુધીમાં, MPC ની બેઠકોમાં મોંઘવારી અને વધારા અસરો ઠીકાં છે યુએસ ફેડ હેંટ, તેના ભાવો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત થયું છે.

## ★ નાણાકીય નીતિની વિવિધ અસરો:-

- નાણાકીય નીતિ એ કેન્દ્રીય બેંક દ્વારા અપનાવવામાં આવતી નીતિ છે, જેમાં પૈસાના પુરવઠા, વ્યાજદર અને ફેડરલ પ્રવાહને નિયંત્રિત કરીને સર્ચતેમને પ્રભાવિત કરવામાં આવે છે. તેની સર્ચતેમ પરની મુખ્ય અસરો નીચે મુજબ છે:-

### ૧. આર્થિક વૃદ્ધિ (Economic Growth):-

વ્યાજદર ઘટાડેલી અને પૈસાની પુરવઠો વધારીને સેક્ટોર અને કાર્ય વધે છે, જેનાથી GDP વૃદ્ધિ થાય છે.

### ૨. ઇગાર્વી:-

નીચા વ્યાજદર થી માંગ વધે છે, જેનાથી ઇગાર્વી વધી શકે છે.

8.

- બંચા વ્યાજદર ધી માંગ ઘટે છે, જે ડુગાવાને નિયંત્રણ માં રાખે છે.

### 3. લેરોજગારી (Unemployment):-

વિસ્તરણકારી નીતિ ધી વ્યવસાયો વધુ સેકાહા કરે છે, જેનાથી નોકરીઓ વધે છે અને લેરોજગારી ઘટે છે.

- સંકોચકારી નીતિ ધી સેકાહા ઘટે છે. જે લેરોજગારી વધારી શકે છે.

### 4. વિનિમય દર (Exchange Rate):-

- બંચા વ્યાજદર ધી વિદેશી મૂડી આકર્ષાય છે, જેનાથી સંધિયાં મજબૂત થાય છે.

- નીચા વ્યાજદર ધી મૂડી આકર્ષણ ઘટે છે, જે સંધિયાને નબળાં પાડે છે.

### 5. સેકાહા અને લગ્યાત (Investment and Savings):-

- નીચા વ્યાજદર ધી લોન સસ્તી થાય છે, જે સેકાહા ને પ્રોત્સાહન આપે છે.

- બંચા વ્યાજદર ધી લગ્યાત વધે છે, પરંતુ સેકાહા ઘટે છે.

### 6. લેન્ડિંગ અને નાણાકીય સ્થિતિ:-

- ~~CRR~~ સ્થિતિ વિસ્તરણ ધી નાણાકીય સ્થિતિમાં (એમ ડી બલ) વધારા શકે છે.

- CRR, SLR જેવા સાધનો ધી લેન્ડિંગ બંધકારી નિયંત્રિત થાય છે.

१.

नाफाडीय नीतिनी सामान्य लोडो परनी असरो, नाफाडीय नीति सीधा बिते लेडोने असर डरे छे, परंतु तेनी असर सामान्य लोडोना सँडिहा अवतमां चहा यडे छे.

असर व क्षेत्र	विस्तारकारी नीति (रिचार्ज)	संकोचनकारी नीति (रिचार्ज)
लोन अने EMI	डोम/ डिएलोन सस्ती → EMI घटे/डोमाल नी लोन परर 500-100 महीने लयती	- EMI वधे → लोन वधे
लगत अने FD	लगत जात / FD पर व्याज घटे → लगत नुं वपार सँडिहा	FD पर व्याज वधे → वरिष्ठ नागरिकाने सँडिहा
पर्ये अने खरीदी	सस्ती लोन → डर, घर, मीनागत नी खरीदी वधे.	मँधी लोन → खरी वधे, लगेर लगेर
गोडरी अने भावड	व्यवसाय वधे → गीसरी-सँ वधे, खगार वधे.	मँधी → छरफा, खगार डीकर
डुगावो अने डिमती	वस्तुसँ मँधी → दाम-खासमाज ना भाव वधे.	डिमती घटे → लगेर मां खरत
शेर लगर/ म्युरयुअल डंड	सँडाडा वधे → लगेर उधरे	सँडाडा घटे → लगेर घटे.

### नाफाडीय नीतिनी वेधारीसो परनी असरो

नाफाडीय नीति वेधारीसोने ब्योड, डोमोडिटी, डोरिडर, लोड अने डेब्लिवेडिंग मार्केटमां सीधा परेस रीते असर डरे छे. असरो विस्तारकारी अने संकोचनकारी नीति पर खाद्यरित छे.

अक्षर संकेत	विस्तारकारी नीति (नीचा व्याज दर)	संकीर्णकारी नीति (बिचा व्याज दर)
स्टॉक मार्केट	लोन सस्ता → डॉरिफरेट नझे वधी → जूल मार्केट	लोन मोंधा → चरफे दरे → जेर मार्केट
डोमोडिटी (गोल्ड, क्रुड)	नीचा रेट → गोल्डमां खोडाडा वधी; क्रुड मांज वधी	बिचा रेट → गोल्ड घरे, क्रुड मांज वधी
होटेड्स (INR/USD)	उधिया गज्या → अड्योर्टसने झपडे, एमपोर्टसने उडसान	उधिया मखुत → एमपोर्टसने झपडे, अड्योर्टसने उडसान
जोन्ड/डेट मार्केट	जोन्ड खोल्स घरे → जोन्ड डिमता वधी	खोल्स वधी → जोन्ड डिमता घरे.
वोलेटिलिटी (VIX)	अधो अविश्चितता → लो वोलेटिलिटी	बिची अविश्चितता → उध वोलेटिलिटी

★ नाड्याडीय नीतिनी सापात अर्ने निडारकारो धरणी असरी

- नाड्याडीय नीति मुख्यतः विनिमय दर, व्याज दर अर्ने अर्थतंत्र नी मागणे प्रभावित झोने सापात अर्ने निडार धर असर झेछे. तनी असर विस्तारकारी अर्ने संकीर्णकारी नीत धर साधाशिल छे. नीचे लिखतवार समजलु छे:-

1. विनिमय दर धर असर (प्राथमिक असर)

- विस्तारकारी नीति (नीचा व्याज दर):-

— वडेशी मुडी लखर वडे छे, जेनाची स्थानिक क्रमे डरनी वज्या चडे छे.

11.

2. मांग और इगावी पर असर (परीक्षा सत्र)

- विस्तारकारी नीति :- अर्थात् मांग बढ़े से, केनाधी स्थानीय वस्तुओं की मांग बढ़े  $\rightarrow$  आपात बढ़े रहे. परंतु इगावी बढ़े तो निर्यातकों का पर्य बढ़े.
- संकुचनकारी नीति :- मांग बढ़े से  $\rightarrow$  आपात बढ़े (क्यादा व्यवसायी) इगावी नियंत्रण मां रहे तो निर्यातकों को स्थिर इमतानी लाभ मां.

3. डेडिट और क्रेडिट पर असर :-

- नीचा व्याज दर की लोन सस्ती पाय से  $\rightarrow$  निर्यातकों को आपातकारी लोने व्यवसाय विस्तार रहे, परंतु विनिमय दर की असर बहुत प्रभाव डाय रहे.